

This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No. ....

Sr. No. of Question Paper : **7287**  
Unique Paper Code : 2413200040  
Name of the Paper : International Taxation  
Type of the Paper : DSE  
Semester : VIII  
Programme : B. A. (P)

**Duration: 3 hours**

**Maximum Marks: 90 marks**

**Instruction for Candidates**

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt all questions.
3. All questions carry equal marks.

Q1. a. What do you mean by International Double Taxation? Explain the principles of international taxation. (18 Marks)

**OR**

a. Elaborate the source rule and residence of international taxation (10 Marks)

b. Write a short note on any one: i. Advance ruling ii. Tax evasion (8 Marks)

Q2.a. Explain the methods to alleviate international double taxation. (18 Marks)

**OR**

a. Discuss the Bilateral and Unilateral tax treaty? (9 Marks)

b. Elaborate the objectives of Double Taxation Avoidance Agreements (DTAA)  
(9 Marks)

Q3. What do you understand by base erosion and profit shifting? Explain the methods used for the same. (18 Marks)

**OR**

a. Explain India Mauritius Tax Treaty. (9 Marks)

b. What are the methods of treaty shopping? (9 Marks)

Q4. a. Explain the concept of Arm's Length Price and its significance in international taxation (12 Marks)

b. Explain the concept of digitalisation of the economy and its impact on taxation. (6 Marks)

**OR**

a. Explain the compliance requirements under transfer pricing provisions. (12 Marks)

b. Explain the importance of digital platform reporting in modern tax systems. (6 Marks)

Q5. a. Discuss the framework of indirect taxation (GST) on e-commerce in India. (12 Marks)

b. Explain the need for reforms in international direct taxation rules due to digitalisation. (6 Marks)

**OR**

a. What are the different types of Advance Pricing Agreements? (12 Marks)

b. Evaluate the role of digital platform reporting in improving transparency and tax compliance. (6 Marks)

प्रश्न 1.

अ. अंतर्राष्ट्रीय दोहरे कराधान (International Double Taxation) से आप क्या समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कराधान के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। (18 अंक)

अथवा

अ. अंतर्राष्ट्रीय कराधान के 'स्रोत नियम' (Source Rule) और 'निवास नियम' (Residence Rule) का विस्तार से वर्णन कीजिए। (10 अंक)

ब. किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए: i. अग्रिम विनिर्णय (Advance Ruling) ii. कर चोरी (Tax Evasion) (8 अंक)

प्रश्न 2. अ. अंतर्राष्ट्रीय दोहरे कराधान को कम करने/दूर करने की विधियों की व्याख्या कीजिए। (18 अंक)

अथवा

अ. द्विपक्षीय (Bilateral) और एकपक्षीय (Unilateral) कर संधि पर चर्चा कीजिए? (9 अंक)

ब. दोहरा कराधान परिहार समझौतों (DTAA) के उद्देश्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। (9 अंक)

प्रश्न 3. अ. 'बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग' (BEPS - आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण) से आप क्या समझते हैं? इसके लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की व्याख्या कीजिए। (18 अंक)

अथवा

अ. भारत-मॉरीशस कर संधि की व्याख्या कीजिए। (9 अंक)

ब. ट्रीटी शॉपिंग (Treaty Shopping) की विधियाँ क्या हैं? (9 अंक)

प्रश्न 4. अ. आर्म्स लेंथ प्राइस (Arm's Length Price) की अवधारणा और अंतर्राष्ट्रीय कराधान में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। (12 अंक)

ब. अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण (Digitalisation) की अवधारणा और कराधान पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। (6 अंक)

अथवा

अ. ट्रांसफर प्राइसिंग (Transfer Pricing) प्रावधानों के तहत अनुपालन आवश्यकताओं (Compliance requirements) की व्याख्या कीजिए। (12 अंक)

ब. आधुनिक कर प्रणालियों में डिजिटल प्लेटफॉर्म रिपोर्टिंग के महत्व की व्याख्या कीजिए। (6 अंक)

प्रश्न 5. अ. भारत में ई-कॉमर्स पर अप्रत्यक्ष कराधान (GST) के ढांचे पर चर्चा कीजिए। (12 अंक)

ब. डिजिटलीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर नियमों में सुधार की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। (6 अंक)

अथवा

अ. अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों (Advance Pricing Agreements - APA) के विभिन्न प्रकार क्या हैं? (12 अंक)

ब. पारदर्शिता और कर अनुपालन में सुधार लाने में डिजिटल प्लेटफॉर्म रिपोर्टिंग की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। (6 अंक)